

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 1909#  
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन की भूमिका  
1909#. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन की भूमिका क्या है;  
(ख) इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिए मंत्रालय ने क्या योजना बनाई है; और  
(ग) पर्यटन से रोजगार सृजित करने तथा युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने वाली योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान में वृद्धि की जा सके और निम्नलिखित विवरणानुसार पर्यटन के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं का सृजन किया जा सके:

- i. स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को परिवर्तित किया है।
- ii. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास।
- iii. नागरिकों को देश में ही यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की गई।
- iv. अन्य निश विषयों के साथ निरोगता पर्यटन, कलिनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ईको-पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का व्यापक रूप से संवर्द्धन किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे को बढ़ाया जा सके।
- v. 166 देशों के नागरिकों के लिए 5 उप-श्रेणियों अर्थात् ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा तथा ई-कोन्फ्रेंस वीजा हेतु ई-वीजा की सुविधा प्रदान करना।
- vi. ई-वीजा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीजा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।
- vii. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रेकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं।

- viii. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।
- ix. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयरलाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। पर्यटन गंतव्यों तक हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।
- x. पर्यटन मंत्रालय ने अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक पूल तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
- xi. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने हेतु श्रमशक्ति को प्रशिक्षित तथा उन्नत करने के लिए 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- xii. सीबीएसपी योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सूक्ष्म और लघु बिजनेस स्टार्ट-अप को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 'उद्यमिता कार्यक्रम (ईपी)' नामक एक कार्यक्रम चलाता है। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए हैं जो 8वीं कक्षा पास हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं।

तृतीय पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट (टीएसए) के अनुरूप लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए देश के कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान इस प्रकार है:

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
नौकरियों में हिस्सेदारी (% में)	14.78	14.87	13.50	12.91
प्रत्यक्ष (%)	6.44	6.48	5.89	5.63
अप्रत्यक्ष(%)	8.33	8.38	7.61	7.28
पर्यटन से प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष नौकरियां (मिलियन में)	72.69	75.85	69.44	68.07

स्रोत: उपर्युक्त अनुमान को तीसरे टीएसए और राष्ट्रीय अकाउंट सांख्यिकी 2022 की सहायता से अद्यतन किया गया है।

\*\*\*\*\*